



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 188-2018/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2018 (KARTIKA 15, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 नवम्बर, 2018

संख्या 99/जीएसटी-2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2018, कहे जा सकते हैं ।
(2) ये नियम 30 अक्टूबर, 2018, से लागू हुए समझे जाएंगे ।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 83 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:-

“83 क. माल और सेवा कर व्यवसायियों की परीक्षा.—(1) नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और जो उक्त नियम के उपनियम (2) के अधीन माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया गया है, उक्त नियम के उपनियम (3) के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करेगा ।

(2) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नार्कोटिक्स अकादमी (जिसे, इसमें, इसके पश्चात् “एन.ए.सी.आई.एन.” निर्दिष्ट किया गया है) परीक्षा का संचालन करेगी ।

(3) **परीक्षा की बारंबारता.**— परीक्षा, बोर्ड, एन. ए. सी. आई. एन., सामान्य पोर्टल, माल और सेवा कर परिषद सचिवालय की शासकीय वेबसाइट पर तथा प्रमुख अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रत्येक वर्ष एन. ए. सी. आई. एन. द्वारा प्रकाशित परीक्षा की अनुसूची के अनुसार वर्ष में दो बार संचालित की जाएगी ।

(4) **परीक्षा के लिए रजिस्ट्रीकरण और फीस का भुगतान.**— (i) कोई व्यक्ति, जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है, एन. ए. सी. आई. एन. द्वारा विनिर्दिष्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्टर करेगा ।

(ii) कोई व्यक्ति, जो परीक्षा के लिए रजिस्टर करता है, एन. ए. सी. आई. एन. द्वारा यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा फीस का भुगतान करेगा और इसकी राशि तथा इसके भुगतान की रीति बोर्ड, एन. ए. सी. आई. एन. तथा सामान्य पोर्टल की शासकीय वेबसाइट पर एन. ए. सी. आई. एन. द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी ।

(5) **परीक्षा केन्द्र.**— परीक्षा संपूर्ण भारत में अभिहित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी । अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रीकरण के समय एन. ए. सी. आई. एन. द्वारा उपलब्ध करवाई गई केन्द्रों की सूची से चयन का विकल्प दिया जाएगा ।

- (6) **परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि और अनुज्ञात प्रयासों की संख्या.**— (i) नियम 83 के उपनियम (2) के अनुसार माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित किसी व्यक्ति से नामांकन के दो वर्ष के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा :
- परंतु यदि किसी व्यक्ति को प्रथम जुलाई, 2018 के पूर्व माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकित किया जाता है, तो उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक वर्ष और दिया जाएगा :
- परंतु यह और कि किसी माल और सेवा कर व्यवसायी, जिसको नियम 83 के उपनियम (1) के खंड (ख) के उपबंध लागू होते हैं, के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने की अवधि उक्त नियम के उपनियम (3) के दूसरे परंतुक में यथा विनिर्दिष्ट होगी ।
- (ii) परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति अनेकों बार प्रयास कर सकता है, किंतु ये प्रयास खंड (i) में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर होंगे ।
- (iii) परीक्षा में सम्मिलित होने का आशय रखने वाले व्यक्ति को प्रत्येक बार रजिस्टर करना तथा अपेक्षित फीस का भुगतान करना होगा ।
- (iv) यदि माल और सेवा कर व्यवसायी अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे कि गंभीर रोग, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा के कारण एक या अधिक प्रयासों का लाभ उठाने से निवारित हो जाता है, तो वह उक्त परीक्षा के आयोजन से तीस दिन के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास करने की अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकारिता आयुक्त को लिखित में अनुरोध कर सकता है। एन. ए. सी. आई. एन. अधिकारिता आयुक्त की सिफारिशों पर मैरिट के आधार पर ऐसे अनुरोधों पर विचार कर सकती है।
- (7) **परीक्षा की प्रकृति.**— परीक्षा कम्प्यूटर आधारित परीक्षण होगी। इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों से मिलकर बना एक प्रश्न पत्र होगा । पैटर्न और पाठ्यक्रम अनुलग्नक-क में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।
- (8) **अर्हक अंक.**— किसी व्यक्ति से कुल अंकों का पचास प्रतिशत प्राप्त करना अपेक्षित होगा ।
- (9) **अभ्यर्थियों के लिए मार्गनिर्देश.**— (i) एन. ए. सी. आई. एन. परीक्षा मार्गनिर्देश जारी करेगी, जिसमें रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया, फीस का भुगतान, पहचान दस्तावेजों की प्रकृति, प्रवेश पत्र का उपबंध, परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करने की रीति, परीक्षा केन्द्र पर कतिपय वस्तुओं को रखने का प्रतिषेध, अभ्यावेदन करने की प्रक्रिया और इसके निपटान की रीति जैसे मुद्दे सम्मिलित होंगे।
- (ii) ऐसे व्यक्ति, जो अनुचित साधनों या प्रथाओं का उपयोग करने में लिप्त है या पाया गया है, के विरुद्ध उप-नियम (10) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अनुचित साधनों या प्रथाओं के उपयोग का दृष्टांत निम्न प्रकार है:—
- (क) किसी भी साधन द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहयोग प्राप्त करना;
- (ख) प्रतिरूपण करना;
- (ग) जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना;
- (घ) परीक्षा के संबंध में या परीक्षा के परिणाम के संबंध में किन्हीं अनुचित साधनों या प्रथाओं का सहारा लेना;
- (ङ) किसी कागज, पुस्तक, नोट या किसी अन्य सामग्री का कब्जे में पाया जाना, जिसे परीक्षा केन्द्र में उपयोग करने की अनुज्ञा न हो;
- (च) दूसरों के साथ संवाद करना या केलकुलेटरों, पर्चों, कागजों आदि (जिस पर कुछ लिखा हो) का आदान प्रदान करना;
- (छ) परीक्षा केन्द्र में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करना;
- (ज) परिनियोजित हार्डवेयर और/या सॉफ्टवेयर के साथ गड़बड़ करना; और
- (झ) पूर्वगामी खंडों में विनिर्दिष्ट सभी कृत्यों या उनमें से कोई कृत्य, जैसी भी स्थिति हो, करने का प्रयास या दुष्प्रेरण करना।
- (10) **अनुचित साधनों या प्रथाओं का उपयोग करने वाले व्यक्ति का निरर्हित होना.**— यदि कोई व्यक्ति अनुचित साधनों या प्रथाओं के उपयोग में लिप्त है या पाया गया है, एन. ए. सी. आई. एन. उसके अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, यदि कोई है, परीक्षा के लिए उसे निरर्हित घोषित कर सकती है।
- (11) **परिणाम की घोषणा.**— एन. ए. सी. आई. एन. परीक्षा के संचालन के एक मास के भीतर बोर्ड, एन. ए. सी. आई. एन., माल और सेवा कर परिषद् सचिवालय, सामान्य पोर्टल की शासकीय वैबसाइटों पर परिणाम की घोषणा करेगी।
- (12) **अभ्यावेदनों पर कार्रवाई.**— ऐसा व्यक्ति, जो अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं है, एन. ए. सी. आई. एन. या अधिकारिता रखने वाले आयुक्त को बोर्ड, एन. ए. सी. आई. एन. तथा सामान्य पोर्टल की शासकीय वैबसाइटों पर एन. ए. सी. आई. एन. द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार लिखित रूप में कारणों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए अभ्यावेदन कर सकता है।

- (13) **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां बोर्ड या राज्य कर आयुक्त की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह, परिषद् की सिफारिशों पर, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकता है।

व्याख्या :— इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, पद—

- (क) "अधिकारिता रखने वाला आयुक्त" से अभिप्राय है, जीएसटीपीसीटी-1 प्ररूप में माल और सेवा कर व्यवसायी के रूप में नामांकन के लिए आवेदन में पते के रूप में घोषित किए गए स्थान की अधिकारिता रखने वाला आयुक्त यह केन्द्रीय कर आयुक्त, यदि नामांकन करने वाले प्राधिकारी को पीसीटी-1 प्ररूप में केन्द्र के रूप में चयन किया गया है, या राज्य कर आयुक्त, यदि पीसीटी-1 प्ररूप में नामांकन करने वाले प्राधिकारी को राज्य के रूप में चयन किया गया है, को निर्दिष्ट करेगा।
- (ख) एन. ए. सी. आई. एन. से अभिप्राय है, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 55/जीएसटी-2, 28 मई, 2018 द्वारा यथा अधिसूचित

अनुलग्नक – क

[देखिए नियम 83 क (7)]

परीक्षा का पैटर्न और पाठ्यक्रम

प्रश्न पत्र: जीएसटी विधि और प्रक्रिया:	
समय:	2 घंटे और 30 मिनट
बहु विकल्पी प्रश्नों की संख्या:	100
प्रश्नों की भाषा:	अंग्रेजी और हिंदी
अधिकतम अंक:	200
अर्हक अंक:	100
कोई नकारात्मक अंक नहीं।	

पाठ्यक्रम:	
1	केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
2	एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
3	राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
4	संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017
5	माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017
6	केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017
7	एकीकृत माल और सेवा कर नियम, 2017
8	सभी राज्य माल और सेवा कर नियम, 2017
9	उक्त अधिनियमों और नियमों के अधीन, समय-समय पर, जारी अधिसूचनाएं, परिपत्र और आदेश।

3. उक्त नियमों में, नियम 142 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात्:—

"142क. विद्यमान विधियों के अधीन शोध्यों की वसूली की प्रक्रिया.—(1) किन्हीं विद्यमान विधियों के अधीन जारी आदेश का सार जो कर की मांग, ब्याज, शास्ति, फीस या कोई अन्य शोध्य सृजित करे, जो नियत दिन के पूर्व या पश्चात् विद्यमान विधि के अधीन आरंभ की गई कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप वसूलनीय हो जाती है जब तक कि उस विधि के अधीन नहीं वसूली गई हो, अधिनियम के अधीन वसूल की जाएगी और अधिनियम के अधीन वसूली के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्ररूप **जीएसटीडीआरसी-07क** में, सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है और आदेश की मांग को इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग II में अंकित किया जाएगा।

(2) जहां उप-नियम (1) के अधीन अपलोड किए गए किसी आदेश की मांग को अपील, पुन विलोकन या पुनरीक्षण सहित किन्हीं कार्यवाहियों में परिशोधित, उपांतरित या अभिखंडित किया जाता है, तो उसका सार, प्ररूप **जीएसटीडीआरसी-8क** में सामान्य पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर के भाग II को तदनुसार अद्यतन किया जाएगा।"

- [illegible]

अतिशेष (भुगतानयोग्य) केन्द्रीय कर /राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर /एकीकृत कर/उपकर /विद्यमान विधि के अधीन राशि/कुल						
कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल	प्रास्थिति (स्थगित/अस्थगित)
15	16	17	18	19	20	21

*[विकलन (डीआर) (भुगतानयोग्य)]/[जमा (सीआर) (संदत्त)]/कमी (आरडी)/समायोजित प्रतिदाय (आरएफ)]

टिप्पण—

- विवरण से संबंधित दायित्वों से भिन्न, प्रोद्भूत सभी दायित्वों को इस खाते में अभिलिखित किया जाएगा। संव्यवहार का पूरा विवरण तदनुसार अभिलिखित किया जाएगा।
 - दायित्वों के लिए नकद या प्रत्यय खाते में किए गए सभी भुगतान तदनुसार अभिलिखित किये जाएंगे।
 - अपील का निर्णय, परिशोधन, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आदि के कारण भुगतानयोग्य राशि में कमी या वृद्धि को तदनुसार यहां पर प्रतिबिंबित किया जाएगा।
 - एकल मांग आईडी के लिए भी नकारात्मक अतिशेष आ सकते हैं यदि अपील अनुज्ञात/भागतः अनुज्ञात की जाती है। समस्त अंतिम अतिशेष तब भी सकारात्मक हो सकते हैं।
 - विशिष्ट मांग आईडी के लिए पूर्व निक्षेप के प्रतिदाय का दावा किया जा सकता है, यदि अपील अनुज्ञात की जाती है, यद्यपि फिर भी, समुचित अधिकारी द्वारा किसी दायित्व के प्रतिदाय के लिए समायोजन के अधीन रहते हुए समस्त अंतिम अतिशेष तब भी सकारात्मक हो सकते हैं।
 - इस भाग में अंतिम अतिशेष का विवरणी को दायर करने पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
 - यदि अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान किया जाता है, तो शास्ति की राशि में कमी स्वतः होगी।
 - कारण बताओं सूचना के लिए या स्वैच्छिक रूप से किए गए किसी अन्य भुगतान को, प्रत्यय या नकद खाते के माध्यम से, भुगतान करते समय रजिस्टर में दर्शित किया जाएगा। विकलन और प्रत्यय की प्रविष्टि को एक साथ सृजित किया जाएगा।
7. उक्त नियमों में, **प्ररूप जीएसटी एपीएल-04** में, क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित सारणी के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या रखी जाएगी, अर्थात्:-

"10. आई जी एस टी मांग के ब्यौरे

प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम)	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
	विवादित राशि					
	निर्धारित राशि					

8. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीडीआरसी-07 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी -07क
[देखिये नियम 142क(1)]
विद्यमान विधियों के अधीन आदेश का सारांश

निर्देश संख्या

तिथि-

भाग क - बुनियादीविवरण		
क्रम संख्या	विवरण	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1	जीएसटीआईएन	
2	विधिक नाम	<<स्वतः>>
3	व्यापार नाम, यदि कोई हो	<<स्वतः>>
4	शासकीय प्राधिकरण, जिसने मांग करने के लिए आदेश पारित किया है	<input type="checkbox"/> राज्य/संघ राज्यक्षेत्र <input type="checkbox"/> केंद्र
5	पुराना रजिस्ट्रेशन संख्या	
6	पूर्व विधि के अधीन अधिकारिता	
7	अधिनियम, जिसके अधीन मांग सृजित की गई है	
8	वह अवधि, जिसमें मांग सृजित की गई है	मास, वर्ष से मास, वर्ष तक
9	आदेश संख्या (मूल)	
10	आदेश तिथि (मूल)	
11	नवीनतम आदेश संख्या	
12	नवीनतम आदेश तिथि	
13	आदेश की सेवा की तिथि (वैकल्पिक)	
14	अधिकारी का नाम, जिसने आदेश पारित किया है (वैकल्पिक)	
15	आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम	
16	क्या मांग पर रोक लगाई गई है	<input type="checkbox"/> हाँ <input type="checkbox"/> नहीं
17	रोक आदेश की तिथि	
18	रोक की अवधि	से - तक

भाग ख - मांग का विवरण						
19.	सृजित की गई मांग के ब्यौरे (सभी सारणी में राशि लाख में)					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

20.	विद्यमान विधि के अधीन संदाय की गई मांग की रकम					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

21. (19-20)	जीएसटी विधि के अधीन वसूल की जाने वाली प्रस्तावित मांग की अतिशेष राशि <<ऑटो-पॉपुलेटेड>>					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

अधिकार क्षेत्र

सेवा में,

_____ (जीएसटीआईएन/आईडी)

-----नाम

_____ (पता)

निम्नलिखित प्रति –

टिप्पण –

- विवरणी में घोषित कर के संक्षिप्त भुगतान सम्बन्धी मांग के मामले में विवरणी की अभिस्वीकृति/संदर्भ संख्या का उल्लेख किया जाएगा ।
- केवल वसूल की गई मांग को जीएसटी विधि के अधीन वसूली के लिए पोस्ट किया जाएगा। एक बार, डीआरसी-07क के माध्यम से मांग सृजित की जाती है और तत्पश्चात् मांग की प्रास्थिति में परिवर्तन किया जाता है, प्रास्थिति में डीआरसी-08क के माध्यम से संशोधन किया जाएगा ।
- आदेश के सारांश को अपलोड करने की तिथि तक संदेय की गई मांग का केवल सारणी 20 में उल्लेख किया जाएगा। विद्यमान विधियों के अधीन दायित्व के विभिन्न शीर्षों को केन्द्रीय अथवा राज्य कर के अधीन परिभाषित की गई शीर्ष के साथ-साथ रखा जाना चाहिए ।
- नवीनतम आदेश संख्या से अभिप्राय है, विशिष्ट मांग के लिए सुसंगत प्राधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश।
- आदेश की प्रति, जिसमें मांग सृजित की गई है, संलग्न की जा सकती है। संदेय कर के समर्थन में दस्तावेज को भी अपलोड किया जा सकता है, यदि उपलब्ध हो ।”।

9. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीडीआरसी-08 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप जीएसटी डीआरसी -08क

[देखिये नियम 142क(2)]

विद्यमान विधियों के अधीन सृजित किए गए सारांश का संशोधन/उपांतरण

संदर्भ संख्या

दिनांक -----

भाग क - बुनियादी ब्यौरे		
क्रम संख्या	विवरण	विशिष्टियां
(1)	(2)	(3)
1	जीएसटीआईएन	
2	विधिक नाम	<<स्वतः>>
3	व्यापार नाम, यदि कोई हो	<<स्वतः>>
4	संदर्भ संख्या, जिसके द्वारा मांग को प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क में अपलोड किया गया	
5	प्ररूप जीएसटी डीआरसी-07क की तिथि, जिसके द्वारा मांग को अपलोड किया गया	
6	शासकीय प्राधिकरण, जिसने मांग करने के लिए आदेश पारित किया है	<input type="checkbox"/> राज्य/संघ राज्य क्षेत्र <input type="checkbox"/> केन्द्र <<स्वतः>>
7	पुराना रजिस्ट्रेशन संख्या	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
8	पूर्व विधि के अधीन अधिकारिता	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
9	अधिनियम, जिसके अधीन मांग सृजित की गई है	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
10	वह अवधि, जिसमें मांग सृजित की गई है	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
11	आदेश संख्या (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
12	आदेश तिथि (मूल)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
13	नवीनतम आदेश संख्या	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
14	नवीनतम आदेश तिथि	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
15	आदेश की सेवा की तिथि	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
16	अधिकारी का नाम, जिसने आदेश पारित किया है (वैकल्पिक)	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
17	आदेश पारित करने वाले अधिकारी का पदनाम	<<स्वतः, संपादन योग्य>>
18	क्या मांग पर रोक लगाया गया है	<input type="checkbox"/> हां <input type="checkbox"/> नहीं
19	रोक आदेश की तिथि	
20	रोक की अवधि	
21	अद्यतन के लिए कारण	<<पाठ पेटी>>

भाग ख – मांग के ब्यौरे						
22.	जीएसटी डीआरसी-07क की सारणी 21 के माध्यम से मूल रूप में पोस्ट की गई मांग के ब्यौरे (सभी सारणी में रकम लाख में) <<स्वतः>>					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

23.	मांग का अद्यतन						
अधिनियम	अद्यतन का प्रकार	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	मांग का रद्द किया जाना (मांग की पूर्ण रूप से समापन)						
2.	छूट की राशि, यदि कोई हो						
3.	कुल छूट (1+2)						

24. (22-23)	अपेक्षित मांग की अतिशेष राशि को जीएसटी विधि के अधीन वसूली की जाएगी <<ऑटो-पॉपुलेटेड>>					
अधिनियम	कर	ब्याज	जुर्माना	शुल्क	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6	7
केंद्रीय अधिनियम						
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम						
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम						

हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
अधिकार क्षेत्र

सेवा में,

_____ (जीएसटीआईएन/आईडी)

..... नाम

_____ (पता)

निम्नलिखित प्रति —

टिप्पण —

1. कटौती में विद्यमान अधिनियम के अधीन किए गए भुगतान भी सम्मिलित हैं। यदि कर की मांग में वृद्धि की जानी है, तो प्ररूप डीआरसी-07क के अधीन एक नई मांग की जा सकती है।
2. आदेश की प्रति, जिसकी मांग उपांतरित/परिशोधित/पुनरीक्षित/अद्यतन/अपडेट की गई है, अपलोड की जा सकती है। भुगतान दस्तावेज को भी संलग्न किया जा सकता है।
3. जीएसटी विधि के अधीन वसूल की गई राशि, जिसके अन्तर्गत दावा किए गए प्रतिदाय के दावे को समायोजन सहित देयता के रूप में दायित्व रजिस्टर में स्वतः अद्यतन किया जाएगा। ऐसी वसूलियों के लिए यह प्ररूप नहीं भरा जाएगा।”।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 6th November, 2018

No. 99/GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Fifteenth Amendment) Rules, 2018.
(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 30th October, 2018.
2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter called the said rules), after rule 83, the following rule shall be inserted, namely:-

“83A. Examination of Goods and Services Tax Practitioners.-(1) Every person referred to in clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 and who is enrolled as a goods and services tax practitioner under sub-rule (2) of the said rule, shall pass an examination as per sub-rule (3) of the said rule.

- (2) The National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics (hereinafter referred to as “NACIN”) shall conduct the examination.
- (3) **Frequency of examination.**-The examination shall be conducted twice in a year as per the Schedule of the examination published by NACIN every year on the official websites of the Board, NACIN, common portal, GST Council Secretariat and in the leading English and regional newspapers.
- (4) **Registration for the examination and payment of fee.**-(i) A person who is required to pass the examination shall register online on a website specified by NACIN.
(ii) A person who registers for the examination shall pay examination fee as specified by NACIN, and the amount for the same and the manner of its payment shall be specified by NACIN on the official websites of the Board, NACIN and common portal.

- (5) **Examination Centers.**-The examination shall be held across India at the designated centers. The candidate shall be given an option to choose from the list of centers as provided by NACIN at the time of registration.
- (6) **Period for passing the examination and number of attempts allowed.**- (i) A person enrolled as a goods and services tax practitioner in terms of sub-rule (2) of rule 83 is required to pass the examination within two years of enrolment:
- Provided that if a person is enrolled as a goods and services tax practitioner before 1st of July 2018, he shall get one more year to pass the examination:
- Provided further that for a goods and services tax practitioner to whom the provisions of clause (b) of sub-rule (1) of rule 83 apply, the period to pass the examination will be as specified in the second proviso of sub-rule (3) of said rule.
- (ii) A person required to pass the examination may avail of any number of attempts but these attempts shall be within the period as specified in clause (i).
- (iii) A person shall register and pay the requisite fee every time he intends to appear at the examination.
- (iv) In case the goods and services tax practitioner having applied for appearing in the examination is prevented from availing one or more attempts due to unforeseen circumstances such as critical illness, accident or natural calamity, he may make a request in writing to the jurisdictional Commissioner for granting him one additional attempt to pass the examination, within thirty days of conduct of the said examination. NACIN may consider such requests on merits based on recommendations of the jurisdictional Commissioner.
- (7) **Nature of examination.**-The examination shall be a Computer Based Test. It shall have one question paper consisting of Multiple Choice Questions. The pattern and syllabus are specified in Annexure-A.
- (8) **Qualifying marks.**- A person shall be required to secure fifty per cent. of the total marks.
- (9) **Guidelines for the candidates.**-(i) NACIN shall issue examination guidelines covering issues such as procedure of registration, payment of fee, nature of identity documents, provision of admit card, manner of reporting at the examination center, prohibition on possession of certain items in the examination center, procedure of making representation and the manner of its disposal.
- (ii) Any person who is or has been found to be indulging in unfair means or practices shall be dealt in accordance with the provisions of sub-rule (10). An illustrative list of use of unfair means or practices by a person is as under: -
- (a) obtaining support for his candidature by any means;
- (b) impersonating;
- (c) submitting fabricated documents;
- (d) resorting to any unfair means or practices in connection with the examination or in connection with the result of the examination;
- (e) found in possession of any paper, book, note or any other material, the use of which is not permitted in the examination center;
- (f) communicating with others or exchanging calculators, chits, papers etc. (on which something is written);
- (g) misbehaving in the examination center in any manner;
- (h) tampering with the hardware and/or software deployed; and
- (i) attempting to commit or, as the case may be, to abet in the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.
- (10) **Disqualification of person using unfair means or practice.**-If any person is or has been found to be indulging in use of unfair means or practices, NACIN may, after considering his representation, if any, declare him disqualified for the examination.
- (11) **Declaration of result.**-NACIN shall declare the results within one month of the conduct of examination on the official websites of the Board, NACIN, GST Council Secretariat, common portal and State Tax Department of the respective States or Union territories, if any. The results shall also be communicated to the applicants by e-mail and/or by post.

- (12) **Handling representations.**—A person not satisfied with his result may represent in writing, clearly specifying the reasons therein to NACIN or the jurisdictional Commissioner as per the procedure established by NACIN on the official websites of the Board, NACIN and common portal.
- (13) **Power to relax.**—Where the Board or State Tax Commissioner is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, on the recommendations of the Council, relax any of the provisions of this rule with respect to any class or category of persons.

Explanation :- For the purposes of this sub-rule, the expressions –

- (a) “jurisdictional Commissioner” means the Commissioner having jurisdiction over the place declared as address in the application for enrolment as the GST Practitioner in **FORM GST PCT-1**. It shall refer to the Commissioner of Central Tax if the enrolling authority in **FORM GST PCT-1** has been selected as Centre, or the Commissioner of State Tax if the enrolling authority in **FORM GST PCT-1** has been selected as State;
- (b) NACIN means as notified by Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 55/GST-2, dated the 28th May, 2018.

Annexure-A

[See sub-rule7]

Pattern and Syllabus of the Examination

PAPER: GST Law & Procedures:	
Time allowed:	2 hours and 30 minutes
Number of Multiple Choice Questions:	100
Language of Questions:	English and Hindi
Maximum marks:	200
Qualifying marks:	100
No negative marking	

Syllabus:	
1	The Central Goods and Services Tax Act, 2017
2	The Integrated Goods and Services Tax Act, 2017
3	All The State Goods and Services Tax Acts, 2017
4	The Union territory Goods and Services Tax Act, 2017
5	The Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017
6	The Central Goods and Services Tax Rules, 2017
7	The Integrated Goods and Services Tax Rules, 2017
8	All The State Goods and Services Tax Rules, 2017
9	Notifications, Circulars and orders issued from time to time under the said Acts and Rules.”.

3. In the said rules, after rule 142, the following rule shall be inserted, namely:-

“**142A. Procedure for recovery of dues under existing laws.** - (1) A summary of order issued under any of the existing laws creating demand of tax, interest, penalty, fee or any other dues which becomes recoverable consequent to proceedings launched under the existing law before, on or after the appointed day shall, unless recovered under that law, be recovered under the Act and may be uploaded in **FORM GST DRC-07A** electronically on the common portal for recovery under the Act and the demand of the order shall be posted in Part II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01**.

(2) Where the demand of an order uploaded under sub-rule (1) is rectified or modified or quashed in any proceedings, including in appeal, review or revision, or the recovery is made under the existing laws, a summary thereof shall be uploaded on the common portal in **FORM GST DRC-08A** and Part II of Electronic Liability Register in **FORM GST PMT-01** shall be updated accordingly.”.

4. In the said rules, in FORM GST REG-16,-

- (a) against serial number 7, for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
“In case of transfer, merger of business and change in constitution leading to change in PAN, particulars of registration of entity in which merged, amalgamated, transferred, etc.”;
- (b) in the instruction, after the Table, for the paragraphs beginning with the words “In case of death of sole proprietor” and ending with the words “surrender of registration falls”, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

“In case of death of sole proprietor, application shall be made by the legal heir / successor before the concerned tax authorities. The new entity in which the applicant proposes to amalgamate itself shall register with the tax authority before submission of the application for cancellation. This application shall be made only after the new entity is registered.

Before applying for cancellation, please file your tax return due for the tax period in which the effective date of surrender of registration falls or furnish an application to the effect that no taxable supplies have been made during the intervening period (i.e. from the date of registration to the date of application for cancellation of registration).”.

5. In the said rules, in FORM GSTR-4, in the Instructions, for serial number 10, the following shall be substituted, namely:-

“10. Information against the Serial 4A of Table 4 shall not be furnished.”.

6. In the said rules, for FORM GST PMT-01 relating to “Part II: Other than return related liabilities”, the following form shall be substituted, namely:-**“Form GST PMT –01**

[See rule 85(1)]

Electronic Liability Register of Registered Person**(Part–II: Other than return related liabilities)**

(To be maintained at the Common Portal)

Reference No.-

GSTIN/Temporary Id –

Date-

Name (Legal) –

Trade name, if any -

Stay status – Stayed/Un-stayed Period - From --To --- (dd/mm/yyyy)

Act - Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS /All

(Amount in Rs.)

Serial Number	Date (dd/mm/yyyy)	Reference No.	Tax Period, if applicable		Ledger used for discharging liability	Description	Type of Transaction *	Amount debited/credited (Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/CESS/amount under existing law/Total)					
			From	To				Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Balance (Payable)						
(Central Tax/State Tax/UT Tax/Integrated Tax/ CESS/ amount under existing law/Total)						
Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total	Status (Stayed / Un-stayed)
15	16	17	18	19	20	21

*[Debit (DR) (Payable)] / [Credit (CR) (Paid)] / Reduction (RD)/ Refund adjusted (RF)]

Note –

1. All liabilities accruing, other than return related liabilities, will be recorded in this ledger. Complete description of the transaction shall be recorded accordingly.
 2. All payments made out of cash or credit ledger against the liabilities would be recorded accordingly.
 3. Reduction or enhancement in the amount payable due to decision of appeal, rectification, revision, review etc. will be reflected here.
 4. Negative balance can occur for a single Demand ID also if appeal is allowed/ partly allowed. Overall closing balance may still be positive.
 5. Refund of pre-deposit can be claimed for a particular demand ID if appeal is allowed even though the overall balance may still be positive subject to the adjustment of the refund against any liability by the proper officer.
 6. The closing balance in this part shall not have any effect on filing of return.
 7. Reduction in amount of penalty would be automatic if payment is made within the time specified in the Act or the rules.
 8. Payment made against the show cause notice or any other payment made voluntarily shall be shown in the register at the time of making payment through credit or cash. Debit and credit entry will be created simultaneously.”
7. In the said rules, in **FORM GST APL-04**, after serial number 9, and the Table relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“10. Details of IGST Demand

Place of Supply (Name of State/UT)	Demand	Tax	Interest	Penalty	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7”.
	Disputed Amount					
	Determined Amount					

8. In the said rules, after **FORM GST DRC-07**, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM GST DRC-07A

[See rule 142A(1)]

Summary of the order creating demand under existing laws

Reference No.

Date -

Part A – Basic details		
Serial Number	Description	Particulars
(1)	(2)	(3)
1.	GSTIN	
2.	Legal Name	<<Auto>>
3.	Trade Name, if any	<<Auto>>
4.	Government Authority who passed the order creating the demand	<input type="checkbox"/> State /UT <input type="checkbox"/> Centre
5.	Old Registration No.	
6.	Jurisdiction under earlier law	
7.	Act under which demand has been created	
8.	Period for which demand has been created	From – mm, yy To mm, yy

9.	Order No. (original)	
10.	Order date (original)	
11.	Latest order no.	
12.	Latest order date	
13.	Date of service of the order (optional)	
14.	Name of the officer who has passed the order (Optional)	
15.	Designation of the officer who has passed the order	
16.	Whether demand is stayed	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
17.	Date of stay order	
18.	Period of stay	From – to -

Part B – Demand details						
19.	Details of demand created (Amount in Rs. in all Tables)					
Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Central Acts						
State/ UT Acts						
CST Act						

20.	Amount of demand paid under existing laws					
Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Central Acts						
State / UT Acts						
CST Act						

21. (19-20)	Balance amount of demand proposed to be recovered under GST laws << Auto-populated >>					
Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Central Acts						
State / UT Acts						
CST Act						

Signature
Name
Designation
Jurisdiction

To

_____ (GSTIN/ID)

-----Name

_____ (Address)

Copy to -

Note –

1. In case of demands relating to short payment of tax declared in return, acknowledgement / reference number of the return may be mentioned.
 2. Only recoverable demands shall be posted for recovery under GST laws. Once, a demand has been created through **FORM GST DRC-07A**, and the status of the demand changes subsequently, the status may be amended through **FORM GST DRC-08A**.
 3. Demand paid up to the date of uploading the summary of the order should only be mentioned in Table 20. Different heads of the liabilities under existing laws should be synchronized with the heads defined under Central or State tax.
 4. Latest order number means the last order passed by the relevant authority for the particular demand.
 5. Copy of the order vide which demand has been created can be attached. Documents in support of tax payment can also be uploaded, if available.”.
9. In the said rules, after **FORM GST DRC-08**, the following form shall be inserted, namely:-

“FORM GST DRC-08A*[See rule 142A(2)]***Amendment/Modification of summary of the order creating demand under existing laws**

Reference no.

Date -

Part A – Basic details		
Serial Number	Description	Particulars
(1)	(2)	(3)
1.	GSTIN	
2.	Legal name	<<Auto>>
3.	Trade name, if any	<<Auto>>
4.	Reference no. vide which demand uploaded in FORM GST DRC-07A	
5.	Date of FORM GST DRC-07A vide which demand uploaded	
6.	Government Authority who passed the order creating the demand	<input type="checkbox"/> State /UT <input type="checkbox"/> Centre <<Auto>>
7.	Old Registration No.	<< Auto, editable>>
8.	Jurisdiction under earlier law	<<Auto, editable>>
9.	Act under which demand has been created	<<Auto, editable>>
10.	Tax period for which demand has been created	<<Auto, editable>>
11.	Order No. (original)	<<Auto, editable>>
12.	Order date (original)	<<Auto, editable>>
13.	Latest order no.	<<Auto, editable>>
14.	Latest order date	<<Auto, editable>>

15.	Date of service of the order	<<Auto, editable>>
16.	Name of the officer who has passed the order (optional)	<<Auto, editable>>
17.	Designation of the officer who has passed the order	<<Auto, editable>>
18.	Whether demand is stayed	<input type="checkbox"/> Yes No <input type="checkbox"/>
19.	Date of stay order	
20.	Period of Stay	
21.	Reason for updation	<<Text box>>

Part B – Demand details

22.	Details of demand posted originally through Table 21 of FORM GST DRC-07A (Amount in Rs. in all tables) <<Auto>>					
Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Central Acts						
State / UT Acts						
CST Act						

23.	Updation of demand						
Act	Type of updation	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Quashing of demand (Complete closure of demand)						
2.	Amount of reduction, if any						
3.	Total reduction (1+2)						

24. (22-23)	Balance amount of demand required to be recovered under the Act << Auto-populated >>					
Act	Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Central Acts						
State / UT Acts						
CST Act						

Signature
Name
Designation
Jurisdiction

To

_____ (GSTIN/ID)

-----Name

_____ (Address)

Copy to –

Note –

1. Reduction includes payment made under existing laws. If the demand of tax is to be increased then a fresh demand may be created under **FORM GST DRC-07A**.
2. Copy of the order *vide* which demand has been modified /rectified / revised/ updated can be uploaded. Payment document can also be attached.
3. Amount recovered under the Act including adjustment made of refund claim will be automatically updated in the liability register. This form shall not be filed for such recoveries.”.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.